


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 22]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 17, 1976/वीच 27, 1897

No. 22]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 17, 1976/PAUSA 27, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 17th January 1976

G.S.R. 25(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1) and the first proviso to sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the Government of Karnataka hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Second Amendment Regulations, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, under 'Karnataka' for the entries:—

- | | |
|---|----|
| (1) Commissioner and Secretary to Government | 6 |
| (2) Secretary to Government | 4 |
| (3) Joint Registrar of Co-operative Societies | 2" |

the following entries shall be substituted, namely:—

- | | |
|---|----|
| (1) "Commissioner and Secretary to Government | 7 |
| (2) Secretary to Government | 3 |
| (3) Joint Registrar of Co-operative Societies | 1 |
| (4) Chief Marketing Officer | 1" |

[No. 11031/31/75-AIS(II)-A]

संश्लिष्ट सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1976

सा० का० नि० 25 (अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (सर्वग) नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (2) के प्रथम परन्तुक और उपनियम (1) के साथ पठित ग्रहिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 का (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, कर्नाटक सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासनिक सेवा (सर्वग के पदों की संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (सर्वग के पदों की संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (सर्वग के पदों की संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में 'कर्नाटक' के अधीन :—

- | | |
|---|----|
| 1. "आयुक्त और सरकार के सचिव | 6 |
| 2. सरकार के सचिव | 4 |
| 3. सहकारी समितियों के संयुक्त पंजीकार | 2" |

प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

- | | |
|--|----|
| (1) "आयुक्त और सरकार के सचिव | 7 |
| (2) सरकार के सचिव | 3 |
| (3) सहकारी समितियों के संयुक्त पंजीकार | 1 |
| (4) मुख्य विपणन अधिकारी | 1" |

[सं० 11031/31/75-अ० भा० से० (II)ए]

G.S.R. 26(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Service Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Karnataka, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Services (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Second Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule III-B to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, against "Karnataka", the entry "Chief Marketing Officer" shall be inserted in column 2 after the entry "Senior Assistant Commissioner/Gazetted Assistant to Divisional Commissioner/Special Deputy Commissioner."

[No. 11031/31/75-AIS(II)-B]

A. K. GUPTA, Under Secy.

सा० का० नि० 26^अ (अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (बेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार कर्नाटक सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासन सेवा (बेतन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (बेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1976 है।

(2) ये सरकार राजपत्र में इन के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (बेतन) नियम, 1954 की अनुसूची-III-ख में “कर्नाटक” के सामने “मुख्य विपणन अधिकारी” प्रविष्टि को “वरिष्ठ सहायक आयुक्त / मण्डल आयुक्त के राजपत्रित सहायक / विशेष उप आयुक्त” प्रविष्टि के बाद कालम 2 में जोड़ दिया जाएगा।

[सं. 11031/31/75-अ० भा० से० (II)-ख]

ए० के० गुप्ता, अवर सचिव।

